

परमाणु उर्जा केन्द्रीय विद्यालय, रावतभाटा

अर्द्धवार्षिक परीक्षा (2019-20)

कक्षा: 6 , विषय:हिंदी

समय:3 घंटे

पूर्णांक:80

निर्देश :- सभी लेखन कार्य स्वच्छता पूर्वक करें |

खंड (क)

प्रश्न 1- निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

आम भारत का राष्ट्रीय फल है | यह एक गूदेदार फल होता है | जो वैज्ञानिक दृष्टि से मैग्नीफेरा नामक प्रजाति से संबंधित है | आम में विटामिन ए, सी, एवं डी होता है इसलिए इसे फलों का राजा भी कहते हैं |

भारत में आम कि सौ से ज्यादा किस्में उपलब्ध हैं | आम विभिन्न रंगों, आकार एवं आकृति के होते हैं | इसकी पैदावार भारत में अति प्राचीन समय से होती आई है | कच्चे आम का अचार, चटनी व अन्य तरीकों से भी प्रयोग है | गर्मियों में कच्चे आम का पना गर्मी के तीव्र ताप व लू से बचाता है | आम का पेड़ शुभ माना जाता है | इसलिए पूजा में इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है |

- | | |
|--|---|
| (क) आम किस प्रजाति का फल है ? | 1 |
| (ख) प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए | 1 |
| (ग) कच्चे आमों का प्रयोग किस-किस रूप में होता है ? | 2 |
| (घ) आम को फलों का राजा क्यों कहते हैं ? | 2 |
| (ङ) भारत में किस प्रकार के आम पाए जाते हैं ? | 2 |

प्रश्न 2- निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

हम सब सुमन एक उपवन के
रंग रंग के रूप हमारे
अलग अलग हैं क्यारी-क्यारी

लेकिन हम सबसे मिलकर ही
इस उपवन कि शोभा सारी
एक हमारा माली हम सब
रहते नीचे एक गगन के
हम सब सुमन एक उपवन के

एक हमारी धरती सबकी
जिसकी मिट्टी से जन्मे हम
मिली एक ही धूप हमें है
सींचे गए एक जल से हम

पले हुए हैं झूल-झूलकर
पलनों में हम एक पवन के
हम सब सुमन एक उपवन के

- | | |
|---|---|
| (क) इस काव्यांश में कवि क्या सन्देश दे रहा है ? | 2 |
| (ख) उपवन की शोभा कैसे होती है ? | 2 |
| (ग) सुमन शब्द के दो पर्याय लिखो | 1 |
| (घ) हम कैसे पले हुए हैं ? | 1 |
| (ङ) कविता का उपयुक्त शीर्षक लिखें | 1 |

खंड (ख)

प्रश्न 3- (क) नीचे लिखे वाक्यों में रीति से संबंधित क्रियाविशेषण लिखो -

4X1=4

- (क) सोनाली जल्दी-जल्दी मुँह में लड्डू ढूसने लगी।
(ख) आज अचानक ठण्ड बढ़ गई।
(ग) टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा।
(घ) तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया।

(ख) नीचे लिखे विशेषणों के लिए एक-एक उपयुक्त संज्ञा लिखो -

2

गुलाबी _____ मखमली _____
कीमती _____ जंगली _____

(ग) नीचे लिखी क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएँ बनाओ -

2

जीतना , पलटना , पढ़ना , सीखना

(घ) उदाहरण के अनुसार खाली स्थानों में सही विशेषण लिखो -

2

उदाहरण - ऊपर वाली दराज - सबसे ऊपर वाली दराज

_____ स्कूल वाला रास्ता _____ पेड़ों वाला घर
_____ हँसने वाला बच्चा _____ फूलों वाली क्यारी

(ङ) नीचे लिखे शब्दों में उपसर्ग व मूलशब्द अलग कर लिखें -

3

अनजान , अज्ञान , अनपढ़

(च) निम्न शब्दों का वाक्य प्रयोग करो - जमघट, तारीफ़, हेकड़ी

3

खंड (ग)

प्रश्न 4- छोटू का सारा ध्यान था कॉन्सोल पैनल पर। कॉन्सोल का एक बटन दबाने कि इच्छा

को वह रोक नहीं पाया। सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कॉन्सोल की तरफ

मुड़ीं पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला दिया।

उसके ऐसे करने से यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था।

(क) सहसा खतरे की घंटी क्यों बज उठी ?

1

(ख) पापा ने छोटू को झापड़ क्यों मारा ?

2

(ग) छोटू का सारा ध्यान कहाँ पर क्यों था ?

2

प्रश्न 5- इस काव्यांश पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें -

हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया

सागर ने रस्ता छोड़ा परबत ने शीश झुकाया

फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें।

हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें।

(क) "सागर ने रस्ता छोड़ा परबत ने शीश झुकाया" कैसे ?

2

(ख) हम चट्टानों में राहें कैसे पैदा कर सकते हैं ?

2

(ग) प्रस्तुत गीत के गीतकार का नाम लिखें।

1

प्रश्न 6- किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लिखें -

4x2=8

(क) केशव और श्यामा ने अण्डों के बारे में क्या-क्या अनुमान लगाये ?

(ख) पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई ?

(ग) राजप्पा ने नागराजन का टिकट-अलबम अंगीठी में क्यों डाल दिया ?

(घ) माँ मोहन के ऐसे-ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी ?

(ङ) ऐसे-ऐसे कौन-कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार

सुनकर समझ जाते हैं, लिखिए ?

प्रश्न 7- किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लिखें -

4x2=8

- (क) सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं ?
- (ख) निम्न में से किसी एक पर गप्पें लिखो - सूरज से गप्पें या पेड़ से गप्पें
- (ग) कविता में चिड़िया को किन-किन चीजों से प्यार है ?
- (घ) अपने आस-पास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों ?
- (ङ) कवि ने चाँद से गप्पें किस दिन लगाई होगी-
निम्न बातों के आधार पर लिखिए-

पूर्णिमा _____
अष्टमी से पूर्णिमा के बीच _____
प्रथमा से अष्टमी के बीच _____

प्रश्न 8- नीचे लिखे प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लिखें -

4x2=8

- (क) अयोध्या नगरी का वर्णन करो ।
- (ख) विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में क्यों आये ?
- (ग) कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वरदान क्या मांगे ?
- (घ) भरत ने ननिहाल में क्या सपना देखा ?
- (ङ) भरत चित्रकूट क्यों गए ?
- (च) श्रीराम के वन गमन पर अयोध्या की दशा का वर्णन करो ।

खंड (घ)

प्रश्न 9- किसी एक को पत्र लिखें -

5

(क) अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिखें ।
या

(ख) प्रधानाचार्य को तीन दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखें ।

प्रश्न 10- किसी एक विषय पर निबंध लिखें -

10

- (क) वर्षा ऋतु
- (ख) स्वतंत्रता दिवस
- (ग) मेरा प्रिय खेल
- (घ) हमारा विद्यालय